

## प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 16.07.2022

**एक ट्रक में क्रूरतापूर्वक लदे 22 राशि गोवंश सहित 01 मोटर साइकिल बरामद (थाना उदयपुर)**

दिनांक 15/16.07.2022 की रात्रि में जनपद के थाना उदयपुर से थानाध्यक्ष श्री एहसानुल हक खाँ मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के रांकी नहर के पास जंगली बबूल के जंगल से एक ट्रक नम्बर यूपी 44 टी 4056 जिसमें क्रूरतापूर्वक कुल 22 राशि गोवंश पशु (08 गाय, 10 बैल, 04 बछड़े) लदे हुए थे व 01 मोटर साइकिल हीरो स्पलेंडर प्लस यूपी 72 बीएम 4558 बरामद किया गया। इस संबंध में थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 148/2022 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11(1)D पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

### **बरामदगी-**

01. एक ट्रक नम्बर यूपी 44 टी 4056
02. 01 मोटर साइकिल हीरो स्पलेंडर प्लस यूपी 72 बीएम 4558
03. 22 राशि गोवंश (08 गाय, 10 बैल, 04 बछड़े)

**पुलिस टीम-** थानाध्यक्ष लालगंज श्री एहसानुल हक खाँ मय टीम, थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

**13 ग्राम 250 मि.ग्रा. स्मैक (नशीला पदार्थ) व स्मैक बिक्री के 100/- रुपये के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली नगर)**

जनपद के थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 श्री घनश्याम सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के भगवा प्राथमिक विद्यालय के पास से एक व्यक्ति दीपक कुमार सरोज पुत्र स्व0 प्रेमशंकर सरोज निवासी भगवा कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ को 13 ग्राम 250 मि.ग्रा. स्मैक (नशीला पदार्थ) के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 667/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

दीपक कुमार सरोज पुत्र स्व0 प्रेमशंकर सरोज निवासी भगवा कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

**बरामदगी-** 13 ग्राम 250 मि.ग्रा. स्मैक (नशीला पदार्थ) व बिक्री के 100/- रुपये।

**पुलिस टीम-** उ0नि0 श्री घनश्याम सिंह मय हमराह थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

## **अवैध तमंचा-कारतूस के साथ 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी गिरफ्तार (थाना कुन्डा)**

आज दिनांक 16.07.2022 को जनपद के थाना कुन्डा से उ0नि0 श्री विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / संदिग्ध व्यक्ति,वाहन चेकिंग/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/22 धारा 393, 286 भादवि से संबंधित अभियुक्त अजय कुमार सरोज पुत्र लालजी सरोज निवासी मौली थाना कुन्डा जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ तथा 01 बाल अपचारी थाना क्षेत्र के मौली ग्राम में स्थित पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी के संबंध में थाना कुन्डा पर मु0अ0सं0 274/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अजय कुमार सरोज पुत्र लालजी सरोज निवासी मौली थाना कुन्डा जनपद प्रतापगढ़ पंजीकृत किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1- अजय कुमार सरोज पुत्र लालजी सरोज निवासी मौली थाना कुन्डा जनपद प्रतापगढ़,

**बरामदगी-** 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

**पूछताछ का विवरण –** पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ में बताया कि हम लोग लूट के इरादे से निकले हैं कि आप लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस द्वारा उक्त दोनों से कड़ाई से पूछने पर अजय कुमार सरोज द्वारा बताया गया कि हम लोग चोरी छिपे घात लगाकर लूट-पाट करते हैं, दिनांक 17.06.2022 को हमलोग अपने एक और साथी अंचू सोनी पुत्र कमलेश सोनी निवासी नरसिंहग के साथ मिलकर मोटर साइकिल से गयासपुर हाइवे पर एक व्यक्ति(सुनार) को लूटने का प्रयास किये थे, मोटर साइकिल अंचू लेकर आया था परन्तु सुनार ने विरोध कर शोर मचाया तो कुछ लोगों के इकट्ठा होने पर बचने के लिए इसी तमन्चे से फायर किया था, जिसका समर्थन बाल अपचारी उपरोक्त ने भी किया ।

**पुलिस टीम-** उ0नि0 श्री विनय कुमार सिंह मय हमराह थाना कुन्डा, जनपद प्रतापगढ़ ।

## हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-(थाना मान्धाता)

दिनांक 09.07.2022 को थाना क्षेत्र मान्धाता के एक नाले के पास जंगल में मिली थी एक महिला का शव ।

घटना के संबंध में थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 225/22 धारा 302, 201 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा उक्त घटना/अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे । इसी क्रम में आज दिनांक 16.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना मान्धाता श्री विरेन्द्र सिंह यादव मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त/ विवेचना के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 225/22 भादवि धारा 302,201 भादवि से संबंधित अभियुक्त अशोक कुमार पटेल उर्फ नन्हके पटेल पुत्र स्व0 जवाहिर लाल पटेल निवासी ग्राम हरिचेतपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र मान्धाता के विश्वनाथगंज मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अशोक कुमार पटेल उर्फ नन्हके पटेल पुत्र स्व0 जवाहिर लाल पटेल निवासी ग्राम हरिचेतपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

**पुलिस टीम-** प्रभारी निरीक्षक श्री विरेन्द्र सिंह यादव मय हमराह थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।